

May 14, 2023

BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street
Mumbai-400 001

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai, Maharashtra – 400 051

Scrip Code: 542729

Symbol: DCMNVL

Dear Sir/ Madam,

Sub: Intimation regarding Audited Standalone & consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023 published in Newspapers.

Pursuant to Regulation 47 read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("the Regulation"), the Company hereby informs that the Audited Standalone and Consolidated Financial Results, in accordance with Regulation 33, for the quarter and year ended March 31, 2023 have been published in the English Newspaper "Financial Express" in English and "Jansatta" in Hindi on 14.05.2023. The copies of said publications are enclosed herewith.

This is for information and record.

Thanking you,

For DCM Nouvelle Limited

Mohd Sagir Company Secretary & Compliance Officer

Encl-a/a



JUBILANT PHARMOVA LIMITED

CIN: L24116UP1978PLC004624

Registered Office: Bhartiagram, Gajraula,

District- Amroha - 244223, UP

Email ID: investors@jubl.com, Website: www.jubilantpharmova.com Phone: +91-5924-267437

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following equity share certificate(s) of Jubilant Pharmova Limited is reported to be lost or misplaced and the holder/claimant thereof have applied for issuance of duplicate shares certificate(s) in lieu thereof.

Sr.	Name & Folio No.	Certificate	Distinct	No. of Equity	
No.		No(s).	From	То	Shares of Re. 1 each
1.	Sushila Vishnu Bendre Joint Holder: Madhavi Prakash Folio No.: 12771	207258	139472116	139476915	4800

Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of such share certificate(s) should lodge such claim(s) in writing with the Registrar and Transfer Agent, M/s. Alankit Assignments Limited, 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi 110055, Tel: +91-11-42541234, Fax: +91-11-41543474 within 15 days of publication of this notice after which no claim shall be entertained and the Registrar and Transfer Agent shall proceed to issue Duplicate Share Certificates/ Letter of Confirmation.

> For and on Behalf of JUBILANT PHARMOVA LIMITED

Place : Noida Naresh Kapoor Date : May 13, 2023 Company Secretary



OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI

4th FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001 SALE PROCLAMATION

RC No.86/13

Date of Auction Sale: 30/06/2023

PROCLAMATION OF SALE UNDER RULE 38, 52(2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT. 1993. CANARA BANK VS M/S. INDIAN DELCO PVT. LTD.

CD-1:- M/s. Indian Delco Pvt. Ltd., Office B-11/45, Mohan Co-Operative Industrial Estate, Mathura Road, Badarpur Border, New Delhi-110044

CD-2:- Shri Anil Bhatia, Director & Guarantor for M/s. Indian Delco Pvt. Ltd., S/o Shri O.S.P. Bhatia.

CD-3:- Shri Sachin Bhatia, Director & Guarantor for M/s, Indian Delco Pvt. Ltd., S/o Shri Anil Bhatia, CD-4:- Smt. Neelam Bhatia, & Guarantor for M/s. Indian Delco Pvt. Ltd., W/o Shri Anil Bhatia.

CD-5:- Defendants No.2 to 4, Residents of C-716, New Friends Colony, New Delhi-110065.

Present Address: A-17 A, First Floor, New Friends Colony, New Delhi-110065.

Recovery Tribunal-I for the recovery of a sum of Rs.25,41,14,536/- along with pendent elite and future interest @

12% p.a. w.e.f. 04.03.2011 till realization and the cost or Rs.1,50,000/- and from the Certificate Debtors together with costs and charges as per recovery certificate. And whereas the undersigned has ordered the sale of property mentioned in the Schedule below in satisfaction of the said

Whereas Recovery Certificate No.86/13 in OA No. 73/11 dated 23.09.2013 drawn by the Presiding Officer, Debts

And whereas there will be due there under a sum of Rs.25,41,14,536/- along with simple interest @ 12% p.a. w.e.f. 04.03.2011. Notice is hereby given that in absence of any order of postponement, the property / properties as under shall be sold by e-auction and bidding shall take place through "On line Electronic Bidding" through the website http://drt.auctiontiger.net on 30.06.2023 between 12:00 PM and 01:00 PM with extensions of 10 minutes duration

S.No.	Details of Property	Reserve Price (In Rs.)	EMD
	Perpetual Lease hold rights from 06.02.1981 on Plot No.45, Block B-2 Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044.		Rs.1,56,00,000/-

(The unearned increase on the property is to be paid by successful auction purchaser)

The EMD shall be paid through Demand Draft / Pay Order in favour of Recovery Officer, DRT-I, Delhi-A/c. R.C. No.86/2013 along with self - attested copy of Identity (voter I-card/Driving License/Passport) which should contain the address for future communication and self-attested copy of PAN Card must reach to the Office of the Recovery Officer, DRT-I, Delhi latest by 26.06.2023 before 5:00 PM.

The EMD received thereafter shall not be considered. The said deposit be adjusted in the case of successful bidders. The unsuccessful bidder shall take return of the EMD directly from the Registry, DRT-I, Delhi after receipt of such report from eauction service provider / bank / financial institution on closure of the e-auction sale proceedings.

The envelope containing EMD should be super-scribed "R.C. No.86/2013" alongwith the details of the sender i.e. address, e-mail ID and Mobile Number etc.

Prospective bidders are required to register themselves with the portal and obtain user ID/Password well in advance which is mandatory for bidding in above e-auction from E-Procurement Technologies Ltd. - Auctiontiger, Contact Person; Mr. Ramprasad Sharma, Contact No.9374519754 - 07961200598 / 554 / 594 / 587 / 559, E-Mail ID: delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net, Corporate Office: B-704, Wall Street - II, Opp. Orient Club Nr. Gujarat College, Ellis Bridge, Ahmedabad - 380006, Gujarat, Details of concerned bank officers / Helpline numbers etc. are as under :-

Name & Designation	Email & Phone Nos.
Shri Anand Srivastava	Mobile No.95600-62365
Shri Anand Kumar Garg	Mobile No.8851936817
Shri Amit Rathi	Mobile No.9582159198
Shri Paritosh	Mobile No.8285428801
	cb2365@canarabank.com

What is proposed to be sold are the rights to which the certificate debtors are entitled in respect of the properties. The properties will be sold along with liabilities, if any. The extent of the properties shown in the proclamation is as per the Recovery Certificate schedule. Recovery Officer shall not be responsible for any variation in the extent due to any reason. The properties will be sold on "As is where is" and "as is what is" condition. Indenting bidders are advised to peruse copies of title deeds available with the Bank and also check the identity and correctness of the property details,

The property can be inspected by prospective bidder(s) before the date of sale for which the above named officer of the

 The undersigned reserves the right to accept or reject any or all bids if found unreasonable or postpone the auction at any time without assigning any reason.

 EMD of unsuccessful bidders will be received by such bidders from the Registry of DRT-I, on identification / production of Identity proof viz., PAN Card, Passport, Voters ID, Valid Driving License or Photo Identity Card issued by Govt. and PSUs. Unsuccessful bidders shall ensure return of their EMD and, shall immediately contact the Recovery Officer, DRT-I, Delhi / Registry, DRT-I, Delhi or the Bank. The sale will be of the property of the above named CDs as mentioned in the schedule below and the liabilities and claims

attaching to the said property, so far as they have been ascertained are those specified in the schedule against each lot. The property will be put up for the sale in the lots specified in the schedule. If the amount to be realized is satisfied by the

sale of a portion of the property, the sale shall be immediately stopped with respect to the remainder. The sale also be stopped if, before any lot is knocked down, the arrears mentioned in the said certificate, interest costs (including cost of the sale) are tendered to the officer conducting the sale or proof is given to his satisfaction that the amount of such certificate, interest and costs have been paid to the undersigned.

 No officer or other person, having any duty to perform in connection with sale, however, either directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold.

 The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Second Schedule to the Income Tax Act, 1961 and the rules made there under and to the further following conditions: The particulars specified in the annexed schedule have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation.

 The amount by which the biddings are to be increased shall in multiple of Rs.10,00,000/- (Rupees Ten Lakh Only). In the event of any dispute arising as to the amount of bid, or as to the bidder, the lot shall at once be again put up to auction.

 The Successful / Highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot provided that further that the amount bid by him is not less than the reserve price. It shall be in the discretion of the undersigned to decline acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so. Successful / Highest bidder shall have to prepare DD / Pay Order for 25% of the sale proceeds favouring Recovery

Officer, DRT-I, Delhi, A/c. R.C. No.86 / 2013 next working days after close of e-auction and after adjusting the earnest money (EMD) and sending / depositing the same in the office of the Recovery Officer so as to reach within 3 days from the close of e-auction failing which the earnest money (EMD) shall be forfeited. The successful / Highest Bidder shall deposit, through Demand Draft / Pay Order favouring Recovery Officer, DRT-I.

Delhi A/c. R.C. 86 / 2013, the balance 75% of the sale proceeds before the Recovery Officer, DRT-I on or before 15th Day from the date of sale of the property, exclusive of such day, or if the 15" day be Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15" day alongwith the poundage fee @ 2% upto Rs.1,000 and @ 1% on the excess of such gross amount over Rs. 1000/- in favour of Registrar, DRT-I, Delhi. (In case of deposit of balance amount of 75% through post the same should reach the Recovery Officer as above).

20. In case of default of payment within the prescribed period, the property shall be resold, after the issue of fresh proclamation of sale. The deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit, be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold.

EMD and subsequent demand drafts payable by such successful auction purchaser is to be collected by the Authorized Officer of CH Bank from the Registry, DRT-I, Delhi who will be responsible for keep the EMD of such successful bidder and remaining amount payable for such sale payable within 15 days in FDR form for a period of 45 days initially, in auto renewal mode and a copy of such FDRs is also to be filed before this forum for records. Bank shall be responsible for loss of interest (if, any) on failure in collecting and depositing the amount paid. On confirmation of sale by this forum interest on EMD and subsequent payment of such sale shall accrue in the RC account and any claim by such successful auction purchaser for such interest on bid amount / EMD shall not be entertained.

Description of the property to be sold with the names of the co-owners where the property belongs to the defaulter and any other person as co-owners Perpetual Lease hold rights from 06.02.1981 on Plot No.45, Block

B-2 Mohan Cooperative

New Delhi-110044.

financialexp.epapr.in

SEAL OF COURT

Industrial Estate, Mathura Road,

Given under my hand and seal on 28.04.2023

SCHEDULE OF PROPERTY Revenue assessed Details of any upon the property or encumbrance to any part thereof which property is

No information received.

*(The unearned increase on the property is to be paid by successful auction purchaser) (RAJESH KUMAR)

RECOVERY OFFICER-I, DRT-I, DELHI

Claims, if any, which have

been put forward to the

property, and any other

known particulars bearing

on its nature and value

INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD. __IndiaShelter

Registered Office: PLOT-15,6TH FLOOR, SEC-44, INSTITUTIONAL AREA, GURUGRAM, HARYANA-122002, Branch Office: 1st Floor, 10-D, Panjawar Complex, Opposite Multipurpose School, Gumanpura, Kota-324007, Rajasthan, Branch Office: Plot No 5, C-5, Ist Floor, Meera Nagar, Chittorgarh-312001 Rajasthan, Branch Office: Khasra No. 2016, Nirbhay Singh Circle, Near HDFC Bank, Jhalawar-326001, Rajasthan

PUBLIC NOTICE- AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

[under Rule 9(1) Of The Security Interest (enforcement) Rules, 2002]
Notice For Sale Of Immovable Property/s Mortgaged With India Shelter Finance Corporation (isfc) (secured Creditor) Under The Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 Notice Is Hereby Given To The Public In General And In Particular To The Borrower(s), Co Borrower/s And Guarantor(s) Or Their Legal Heir/s Representatives That The Below Described Immovable Property/s Mortgaged/charged To The Secured Creditor, The Possession Of Which Has Been Taken By The Authorized Officer Of Isfc (secured Creditor), Will Be Sold On 29-may-2023 (date Of Auction) On "as Is Where Is", "as Is What Is" And "what Ever There Is" Basis For Recovery Of Outstanding Dues From Below Mentioned Borrowers, Co-Borrowers Or Guarantors. The Reserve Price And The Earnest Money Deposit Is Mentioned Below. The Sealed Envelope Containing The Emd Amount For Participating In Public Auction Shall Be Submitted To The Authorised Officer Of Isfc On Or Before 27-may-2023 Till 5 Pm At Branch/corporate Office: Plot-15,6th Floor, Sec-44, Institutional Area, Gurugram, Haryana-122002, Branch Office: 1st Floor, 10-d, Panjawani Complex, Opposite Multipurpose School, Gumanpura, Kota-324007, Rajasthan, Branch Office: Plot No 5, C-5, Ist Floor, Meera Nagar, Chittorgarh-312001, Rajasthan, Branch Office: Khasra No. 2016, Nirbhay Singh Circle, Near Hdfc Bank, Jhalawar-326001, Rajasthan

Loan Account No./AP Number	Name of Borrower(s)/ Co- Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Legal Heir(s)/ Legal Rep.	Date of Demand NoticeAmount as on date	Type of Possession (Under Constructive/ Physical)		Earnest Money				
HL2000000832/ AP-0203686	Mamta Bai, Ram Lal & Vijendra	09-MAR-2019 Rs. 3,75,201/- (Rupees Three Lakh Seventy Five Thousand Two Hundred and One Only) as on 31-MAR-2019 with further interest applicable from 01-APR-2019 until payment in full		Rs. 6,73,965/- (Rupees Six Lakh(s) Seventy Three Thousand Nine Hundred Sixty Five Only)	Rs.67,396.50/- (Rupees Sixty Seven Thousand Three Hundred Ninety Six and Paise Fifty Only)				
Description of Property: All That Part And Parcel Of Property Situated At Ward No. 42, Bhadana, Tehsil Ladpura, Kota, Area Measuring 855 Sq. Feet. In Favour Of Mr. Ram Lal S/o Mr. Modu Lal Bounded As: East: House Of Dwarka Ji, West: House Of Chhagan Lal, North: Naala, South: Road									
HL1400001383/ AP-0081164	Sugna Bai Gadri & Suresh Chandra Gadri	16-NOV-2021 Rs. 2,24,923.27/- (Rupees Two Lakh Twenty Four	Physical	Rs. 4,98,474/- (Rupees Four Lakh(s)	Rs.49,847.40/- (Rupees Forty				

Thousand Nine Hundred Twenty

Three & Twenty Seven Paise

Only) as on 30-NOV-2021 with **Hundred Seventy** further interest applicable from 01 Four Only) Paise Forty Only) DEC-2021 until payment in full Description of Property: All That Part And Parcel Of Property Hadmala Kachhi Basti, Bhoi Kheda, Aaraji No.260/1 Chittorgarh (rajasthan nded As: Eas

House Kanhaiya Lal Jatiya, West: House Ramesh Jatiya, North: Road, South: Open Land Kanchan Bai Rs.32,159.50/-18-DEC-2017 Rs. 3.77.462/-Rs. 3,21,595/-W/oMr. Madan Singh, (Rupees Three Lakh Seventy (Rupees Thirty AP-0361193 (Rupees Three Ìwo Thousand Bheru Singh S/o Mr. Madan Seven Thousand Four Hundred Lakh(s) Twenty One One Hundred Sixty Two Only) as on 31-DEC-Thousand Five Singh & Bhawani Singh S/o Fifty Nine and 2017 with further interest Hundred Ninety Five Mr. Madan Singh applicable from 01-JAN-2018 until Paise Fifty Only) payment in full

Description of Property: All That Part And Parcel Of Property Situated At Undal, Gram Panchayat Khanpuriya, Tehsil Jhalrapatan, Distt. Jhalawar Rajastha Admeasuring Area 450 Sq. Feet In Favour Of Mrs. Kanchan Kanwar W/o Mr. Madan Singh Rajput Bounded As: East: Road, West: Ratan Singh/kishan Singh North: Sajjan Singh/kishan Singh, South: Sajjan Singh/kishan Singh

1) The Prescribed Tender/ Bid Form And The Terms And Conditions Of Sale Will Be Available With The Branch/corporate Office: Plot-15,6th Floor, Sec-44, Institutional Area, Gurugram, Haryana-122002, Branch Office: 1st Floor, 10-d, Panjawani Complex, Opposite Multipurpose School, Gumanpura, Kota-324007, Rajasthan, Branch Office: Plot No 5, C-5, Ist Floor, Meera Nagar, Chittorgarh-312001, Rajasthan, Branch Office: Khasra No. 2016, Nirbhay Singh Circle, Near Hdfc Bank, Jhalawar–326001, Rajasthan Between 10.00 A.m. To 5.00 P.m. On Any Working Day.

The Immovable Property Shall Not Be Sold Below The Reserve Price. All The Bids/Tenders Submitted For The Purchase Of The Above Property/s Shall Be Accompanied By Earnest Money As Mentioned Above. Emd Amount Favouring "india Shelter Finance Corporation Limited". The Emd Amount Will Be Return To The Unsuccessful Bidders After Auction.

The Highest Bidder Shall Be Declared As Successful Bidder Provided Always That He/she Is Legally Qualified To Bid And Provided Further That The Bid Amount Is Not Less Than The Reserve Price. It Shall Be The Discretion Of The Authorised Officer To Decline/acceptance Of The Highest Bid When The Price Offered Appears Inadequate As To Make It Inadvisable To Do So.

The Prospective Bidders Can Inspect The Property On 25-may-2023 Between 11.00 A.m And 5.00 P.m With Prior Appointment. The Person Declared As A Successful Bidder Shall, Immediately After The Declaration, Deposit 25% Of The Amount Of Purchase Money/ Highest Bid Which Would Include Emd Amount To The Authorised Officer Within 24 Hrs. And In Default Of Such Deposit, The Property Shall Forthwith Be Put To Fresh Auction/Sale By Private Treaty.

In Case The Initial Deposit Is Made As Above, The Balance Amount Of The Purchaser Money Payable Shall Be Paid By The Purchaser To The Authorised Officer On Or Before The 15th Day From The Date Of Confirmation Of The Sale Of The Property, Exclusive Of Such Day Or If The 15th Day Be A Sunday Or Other Holiday, Then On The First Office Day After The 15th Day. In The Event Of Default Of Any Payment Within The Period Mentioned Above, The Property Shall Be Put To Fresh Auction/ Sale By Private Treaty. The

Deposit Including Emd Shall Stand Forfeited By India Shelter Finance Corporation Ltd. And The Defaulting Purchaser Shall Lose All Claims To The

The Above Sale Shall Be Subject To The Final Approval Of Isfc, Interested Parties Are Requested To Verify/confirm The Statutory And Other Dues Like

Sales/property Tax, Electricity Dues, And Society Dues, From The Respective Departments / Offices. The Company Does Not Undertake Any Responsibility Of Payment Of Any Dues On The Property.

Tds Of 1%, If Any, Shall Be Payable By The Highest Bidder Over The Highest Declared Bid Amount. The Payment Needs To Be Deposited By The Highest Bidder In The Pan Of The Company And The Copy Of The Challan Shall Be Submitted To The Company. Sale Is Strictly Subject To The Terms And Conditions Incorporated In This Advertisement And Into The Prescribed Tender Form.

The Successful Bidder/ourchaser Shall Bear All Stamo Duty, Registration Fees, And Incidental Expenses For Getting Sale Certificate Registered As Applicable As Per Law. 13) The Authorised Officer Has The Absolute Right To Accept Or Reject The Bid Or Adjourn / Postpone / Cancel The Tender Without Assigning Any Reason

Thereof And Also To Modify Any Terms And Conditions Of This Sale Without Any Prior Notice. Interested Bidders May Contact Mr. Narender Singh At Mob. No. +91 - 94611 65805 & Mr. Praveen Kumar At Mob. No. +91 - 98292 10801 During Office

15 DAYS SALE NOTICE TO THE BORROWER/GUARANTOR/MORTGAGOR

interest and expenses before the date of Auction failing which the property shall be auctioned and balance dues, if any, will be recovered with interest and cos

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

Date: 14/05/2023, Place: Rajasthan

ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED

Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat - 362266. Corporate Office: 10th Floor, R Teck Park, Nirlon Complex, Near Hub Mall,

Goregaon (East), Mumbai-400 063, MH.

E-AUCTION PRE-SALE NOTICE 15 days Auction Pre-Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets

and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Whereas the Authorized Officer of Aditya Birla Finance Limited / Secured Creditor had taken possession of the following secured assets pursuant to notice issued under Sec. 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI) for recovery of the secured debts of the secured creditor, for the dues as mentioned herein below with further charges and cost thereon from the following Borrowers and Co-Borrowers. Notice is hereby given to the public n general and in particular to the Borrowers and Co-Borrowers that e-auction of the following property for realization of the debts due to the Aditya Birla Finance Limited will be held on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis.

DATE & TIME OF E-AUCTION: 29.05.2023, BETWEEN 11:00 A. M. TO 01:00 P. M. LAST DATE OF RECEIPT OF KYC & EARNETS MONEY DEPOSIT (EMD): 27.05.2023

Sr. No.	Name of the Borrowers & Co-Borrowers	Description of Properties / Secured Assets and Date of Possession	Reserve Price (in₹)	Earnest Money Deposit (EMD) (10% of RP) (in₹)	Demand Notice Date and Total Amount (in₹)
1	1. M/s. Jiwan Electrical Industries Through It's Proprietor Sh. Vikram Bedi 2. Sh. Vikram Bedi, S/D/W/H. Sh. Harbhajan Bedi 3. Sh. Siddharath Bedi, S/D/W/H. Sh. Vikram Bedi 4. Ms. Alka Bedi, S/D/W/H. Sh. Vikram Bedi LOAN A/C. NO.: ABFLNDDSB0000131163 & ABFLNDDSB00000131169	All Piece & Parcel of Property No. 1/10073-D/2, Old No. 9903, Khasra No. 354 & 355, Village Babarpur, Gali No. 3-J, West Gorakh Park, Illaqa Shahdara, New Delhi-110 032, And Bounded by: •East: 10 ft. Gali; •West: Other Property; •North: Other Property; •South: Other Property. (PHYSICAL POSSESSION)	97,00,000/- (Rs. Ninety- Seven Lakh Only).	9,70,000/- (Rs. Nine Lakh Seventy Thousand Only).	17.06.2022 89,65,088/- (Rs. Eighty Nine Lakh Sixty Five Thousand & Eighty-Eight Only) Due as on 16.06.2022
2	Satishchander Sachdeva, S/o. Jaswant Rai Sachdeva Satish Sachdeva Dental Clinic (Through Its Prop Satishchander Sachdeva) Shobha Sachdeva D/W/O. Ganpath Baburao Pawar 4. Soham Sachdeva, S/O. Satish Chander Sachdeva LOAN A/C. NO.: ABFLNDOSB0000076017, ABFLNDOSB0000076066, ABFLNDOSB00000102857	All That Piece & Parcel of Property Shop No. 8, Ground Floor, MCD Building, Shakti Nagar Chowk, Delhi-110 007 With The Lease Hold Rights of The Land under the said Shop Area Falling Within The Limits Of Sub Registrar Delhi, Sub District-1, Delhi under Notification Dated 14.09.1968 Issued By Delhi Administration Delhi. Bounded as: *East by: Road; *West By: Toilets; *North By: Shop No. 7; *South By: Shop No. 9. (PHYSICAL POSSESSION)	90,00,000/- (Rs. Ninety Lakh Only).	9,00,000/- (Rs. Nine Lakh Only).	17.06.2022 1,04,88,462/- (Rs. One Crore Four Lakh Eighty Eight Thousand Four Hundred & Sixty Two Only) Due as on 17.06.2022
3	1. Mr. Nitin Narag S/o. Mr. Amar Nath 2. Om Sai Packers Prop. Mr. Nitin Narag 3. Ms. Krishna Rani D/o. Harish Kumar 4. Ms. Vimal Rani D/o. Mr. Amar Nath LOAN A/C. NO.: ABFLPNTDSB0000073248 & ABFLPNTDSB0000105317	ALL PICEE AND PARCEL PROPERTY BEARING: All that piece and parcel H. No. 19/15, Waka Jawahar Nagar, Tehsil Camp Panipat, Inside M. C. Tehsil & District, Panipat, Haryana-132 103, and bounded by:-East by: Ashok Kumar 54 Ft.; West by: Jagan Nath 53.7 ft.; North by: Other property 6.7+5+6.1 ft.; South by: Gali 13.6 ft. (PHYSICAL POSSESSION)	20,00,000/- (Rs. Twenty Lakh Only)	2,00,000/- (Rs. Two Lakh Only)	17.02.2022 ₹ 28,09,793.22 (Rs. Twenty Eight Lakh Nine Thousand Seven Hundred Ninety Three & Twenty Two Paise Only) Due as on 10.02.2022
4	1. Late Sh. Ramrattan, Through Its Legal Hiers 2. Sh. Dhirender, S/D/W/H. Late Sh. Ramrattan, 3. Ms. Ranjana, S/D/W/H. Late Sh. Ramrattan, LOAN A/C. NO.: ABFLPNTDSB0000118758	All That Piece & Parcel Ward No. 10, Krishna Colony, Nr. Milap Hotel Gohana, Sonipat, Panipat Haryana-131303, (Khewat No. 2039/2039, Khata No. 2393 Min, Killa No. 208/24 (4-8) Abadi Krishna Nagar Inside MC Limit, Gohana, Sonipat-131303) As Bounded By:-East: Other Property; •West: Street; •North: Other Property; •South:	48,00,000/- (Rs. Forty Eight Lakh Only).	4,80,000/- (Rs. Four Lakh Eighty Thousand Only).	06.04.2022 35,57,288.04 (Rs. Thirty-Five Lakhs Fifty-Seven Thousand Two Hundred Eighty- Eight & Four Paise Only)) Due as on 17.03.2022

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Aditya Birla Finance Limited / Secured Creditor's website i.e. https://personalfinance.adityabirlacapital.com/properties-for-auction-under-sarfaesi-act.aspx. Contact Nos.: Aditya Birla Finance Limited Authorized Officer - (1) Mr. Mukesh Kumar Choudhary (mukesh.choudhary@

Street (PHYSICAL POSSESSION)

adityabirlacapital.com) Mob. No. 9343976618 / 9004266300 & (2) Md. Tanweer Anwar (Md.Anwarl@adityabirlacapital.com) Mob. No.-8527273606 (For Sr. No. 1 & 2 Only) (3) Mr. Sachin Patial (Sachin.kumar31@adityabirlacapital.com) Mob. No.- 918427450011 (For Sr. No. 3 & 4 Only)

Place: New Delhi / Panipat Date: 14.05.2023

Authorised Officer **ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED**

*FINANCIAL EXPRESS

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-II, CHANDIGARH

RC No.: 652/2019 CATHOLIC SYRIAN BANK

.....Certificate Holde SH. JASPREET SINGHCertificate Debtor DEMAND NOTICE UNDER RULE 2 OF THE SECOND SCHEDULE TO INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH SECTION 25 TO 28 OF THE RDDB & FI ACT, 1993)

Sh. Jaspreet Singh S/o Sh. Amarjit Singh, House No. 39, Gulmohar Avenue, Village Dhakoli, MC Zirakpur, District SAS Nagar, Punjab - 140603.

PUBLICATION

Smt. Bhupinder Kaur W/o Sh. Amarjit Singh, House No. 39, Gulmohar Avenue, Village Dhakoli, MC Zirakour, District SAS Nagar, Punjab - 140603.

In terms of the Recovery Certificate No. 652/2019 in O.A. No. 909/2017 issued by he Hon'ble Presiding Officer, a sum of Rs. 27,59,191.00 has become due from you. You are hereby called upon to deposit the above sum within fifteen days of the eceipt of this Notice.

In addition to the aforesaid sum, you shall be liable to pay:-

a. Interest as per the order in the Recovery Certificate.

Nine Thousand

Eight Hundred

Forty Seven and

Ninety Eight

Thousand Four

(AUTHORIZED OFFICER)

INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD

b. All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and other process that I may have taken for recovering the same due.

You are also directed to appear before the undersigned on 20.05.2023 along with the affidavit disclosing your movable and immovable assets. In case you fail to appear on the said date personally or through your authorized representative / counsel, the case will be decided as per Law

Given under my hand and seal of this Tribunal on 24.01.2023 at Chandigarh.

(RECOVERY OFFICER-II) DRT-II, Chandigarh

Legal Cell Plot # 31, Najafgarh Industrial Area, Tower-A, 1st Floor, Shivaji Marg. Moti Nagar, New Delhi - 110015 POSSESSION NOTICE APPENDIX IV [RULE 8(1)]

Whereas, the undersigned being the authorized officer of the HDFC BANK LTD, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002(54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of th Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice dated 24/02/2023 calling upon the borrower(s) 1. M/s Sagar Trading Company Through Its Proprietor Ms. Sheela Devi W/o Shri Ram Kumar Bansal 2. Mrs. Sheela Devi W/o Shri Ram Kumar Bansal 3. Mr Naresh Kumar Bansal S/o Shri Ram Kumar Bansal 4. Mr. Lalit Kumar Bansal S/o Shri Ran Kumar Bansal 5. Mr. Vinod Kumar Bansal S/o Shri Ram Kumar Bansal to pay the amount mentioned in the notice Rs. 82,72,691/- (Rupees Eighty Two Lakhs Seventy Two Thousand Six Hundred and Ninety One Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules 2002 on this 12-May-2023 (Friday). The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to charge of HDFC BANK LTD, for an amount of Rs. 82,72,691/- (Rupees Eighty Two Lakhs Seventy Two Thousand Six Hundred and Ninety One Only) and interest thereon together with expenses and charges etc, less amount paid if any The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY SHOP NO. 06, MEASURING 20'X85'(188.88 SQ.YARDS), MOHNA, NEW GRAIN MARKET

ANAJ MANDI, TEHSIL BALLABHGARH, DISTT FARIDABAD DATE :- 12/May/2023 Authorised Officer

Tel: 011-45013348 | Email Id: info@dcmnvl.com

PLACE :- FARIDABAD HDFC Bank Ltd.

DCM Nouvelle Limited

Regd. Office: 407, Vikrant Tower, 4 Rajendra Place, New Delhi - 110008

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023, (In ₹ Lakh, except per equity share data) Quarter Ended Year Ended 31/03/2023 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2022 Particulars (Audited) (Audited) (Audited) 24,941 87,024 91,763 Total income from Operations 23,948 Earning before interest, tax, depreciation 3,740 18,266 1,392 3,091 & amortization Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or extraordinary items) 603 2,753 2,117 16,413 Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional &/ or extraordinary items) 309 2,753 1,823 16,413 Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) 113 1,166 12,260 2,109 Total Comprehensive Income for the period Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income 12,231 1,179 (after tax) 113 2,079 Paid up equity share capital (face Value of ₹10/- each) 1,868 1,868 1,868 1,868 Other Equity 30,020 28,778 Earnings per share (of ₹ 10 each) (for continuing & discontinued operations)

Notes: . The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with Stock Exchnages under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the standalone and consolidated guarterly/annual financial results are available on the Company's website: (www.dcmnvl.com) and websites of Bombay Stock Exchnage (www.bseindia.com) and National Stock Exchnage of India Limited. (www.nseindia.com).

0.60

11.29

6.24

65.64

Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation regulation 47(1)(b) of SEBI (7 in lakhs except as stated otherwise)

Year Ended Quarter Ended 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2022 Particulars (Audited) (Audited) (Audited) Total income from Operations 23,951 24,941 87,033 91,763 Earning before interest, tax, depreciation 18,286 & amortization 1,478 3,111 4,131 2,773 2,516 691 Profit before tax (before exceptional items) 16,433 Profit before tax (after exceptional items) 397 2,773 2,222 16,433 201 2,129 1,565 12,280

. The financial results of the Company for the year ended 31 March 2023 which have been extracted from the financial statements audited by the Statutory auditors, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 13 May 2023. The Statutory auditors have expressed an unmodified audit opinon on these financial results.

By order of the Board of Directors DCM Nouvelle Limited Hemant Bharat Ram (Managing Director)

Date: 13.05.2023

Place: New Delhi

Basic and diluted (₹)

BHARAT SEATS LIMITED CIN: L34300DL1986PLC023540 Registered Office: 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi-110070

Corporate Office: PLOT NO.1, Maruti Udyog Joint Venture Complex, GURUGRAM-122015(Haryana) INDIA Phones:+91 9643339870-74, E-mail: investor_relations@bharatseats.net WEBSITE: www.bharatseats.com NOTICE TO SHAREHOLDERS

(Sub: For transfer of equity shares of the Company to Investor Education and **Protection Fund)** Notice is hereby given pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with

the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, all the Equity Shares of the Company in respect of which dividend has remained unclaimed or unpaid for a period of seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

Pursuant to the IEPF Rules, the Company has sent individual communication to the concerned shareholders at their registered addresses who have not claimed/encashed the dividend for the financial year 2015-16 and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority, advising them to claim their unclaimed dividends latest by 14th August, 2023 to avoid transfer of their shares to the Demat Account of the IEPF Authority The details of such shareholders have been uploaded on the website of the Company a

www.bharatseats.com for verification by the concerned shareholders. The concerned shareholders are requested to claim their unpaid/unclaimed dividend for the financial year 2015-16 and onwards before the same is transferred to the IEPF by making an application to the Company or its share transfer agents, i.e. Alankii

Assignments Limited. In case concerned shareholders do not encash any of their dividend(s), which remains unpaid/ unclaimed for last seven (7) consecutive years by the next due date of transfer the Company shall with a view to comply with the Rules, transfer the shares to the IEPF Authority without any further notice to the shareholders and no liability shall lie against

In case shareholders wish to claim the shares/dividend after its transfer to IEPF, separate application has to be made to the IEPF Authority in form IEPF-5, as prescribed under IEPF Rules and the same is available along with all details at the IEPF website

For further information/ clarification, concerned shareholder may contact the Company or the RTA at the following address:

Corporate Office of the Company Registrar & Share Transfer Agent Office **Bharat Seats Limited** Alankit Assignments Limited (Nodal Officer and Company Secretary) | (Unit: Bharat Seats Limited) PLOT NO.1, Maruti Udyog Joint Venture Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Complex, GURUGRAM-122015(Haryana) Extension, New Delhi - 110 055. **INDIA** Tel:011-42541234, 23541234 Email:rta@alankit.com Tel: :+91 9643339870-74 Email:

For Bharat Seats Limited

Ritu Bakshi **Company Secretary** FCS: 3401

the Company in respect of the shares so transferred.

New Delhi

Place: Gurugram

Date: 12.05.2023

investor_relations@bharatseats.net

जम्मू, 13 मई (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में और ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए शनिवार को उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया, बैठक में अर्थव्यवस्था को बढावा देने के लिए व्यापारिक सुगमता बढ़ाने और सभी मुद्दों को सक्रियता से हल करने के लिए भी रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में उपराज्यपाल ने जम्मू स्थित संभागीय आयुक्त कार्यालय और जम्मु, कठुआ, सांबा और ऊधमपुर के उपायुक्त कार्यालयों में सहायता केंद्र खोलने का निर्देश दिया। बैठक में उपराज्यपाल ने कहा, 'जम्मू कश्मीर प्रशासन का मुख्य उद्देश्य भूमि उपयोग में परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने और कारोबारी सुगमता बढ़ाने

छात्र का शव फंदे से लटका मिला कदुआ, १३ मई (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर में कथित तौर पर खुदकुशीं करने वाले छात्र के परिजनों ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया और जम्मू-पठानकोट मार्ग को करीब दो घंटों तक जाम किया। अधिकारियों ने बताया कि परिजनों ने उन परिस्थितियों की जांच कराए जाने की मांग की है जिसकी वजह से युवक की मौत हुई है।

अधिकारियों ने कहा कि मतक की पहचान अरुण कुमार के रूप में हुई है, जो पठानकोट स्थित सरकारी रनातक महाविद्यालय में अंतिम वर्ष का छात्र था। उन्होंने बताया कि अरुण का शव कटुआ जिले में स्थित उसके छात्रावास के कमरे में शुक्रवार को फंदे से लटका मिला था। उन्होंने कहा कि युवक का शव कठुआ स्थित सरकारी मेडिकल कालेज में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

अधिकारियों ने कहा कि मृतक का शव शनिवार सुबह अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को सौंपा गया, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया और बाद में लखनपुर में धरना दिया। परिजनों ने उन परिस्थितियों की जांच की मांग की है, जिसके कारण युवक की मौत हुई।

सिहत सभी मुद्दों को तेजी से हल देनी चाहिए, और निवेशकों को करना है।' उन्होंने कहा, 'संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सहायता

समयबद्ध तरीके से सभी मंजरी प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए।'

सूचना HE 3C

थी सी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईआरपी में) द्वारा सेक्टर–168, नोएडा (यूपी) स्थित टावर संख्या-7, 8, 9, 10, 11, 12ए और 14 (07 नग), इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स एंड क्लब जिसमें सिविल और स्ट्रक्चरल वर्क्स, इंटीरियर फिनिशिंग, पूरा एमईपी वर्क्स (लो साइड और हाई साइड), लैंडस्केपिंग और हार्डस्केपिंग, इंटरनल रोड्स, हॉर्टिकल्चर वर्क्स आदि शामिल हैं, के निर्माण और लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए एक या एक से अधिक ठेकेदारों से निर्धारित प्रारूप में "रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)" आमंत्रित किया जाता है। ईओआई दस्तावेजों और पात्रता मानदंड एवं अन्य शर्तों का विवरण www.lotuszing.in पर उपलब्ध है, इसके अलावा इच्छुक फर्मस हमारे प्रधान कार्यालय में सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक, टेक बलेवार्ड, सेंटल ब्लॉक, लोटस जिंग कार्यालय, बेसमेंट-1, सेक्टर-127, नोएडा में आ सकती हैं। निर्धारित प्रारूप में ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 29.05.2023 को शाम 5 बजे तक है

दिनांकः 13.05.2023

स्थानः गुरुग्राम

थ्री सी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईआरपी में) के लिए संकल्प पेशेवर

1ए, संस्कृति अपार्टमेंट, जीएच –22, सेक्टर 56, गुरुग्राम–12201 आईबीबीआई / आईपीए-003 / आईपी-एन00062 / 2017-18 / 10548 ईमेलः cmaajitjha@gmail.com

पहुंचान की अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव नाम: मालूम नही, s/o: मालूम नही, निवासी: मालूम नही, उम्रु: लगभग 26-30 वर्ष, रंग: गेहुंआ, कद: 5'5", पहनावा: नीले रंग की टी.शर्ट और लोअर, जो दिल्ली के मिलेनियम डिपो के नजदीक सराय काले खां के पास



जमुना नदी खादर में मृत पाया गया था। इस बाबत DD No. 25A दिनांक. 09.05.2023 थाना: सनलाईट कॉलोनी, दिल्ली में दर्ज

इस मृत व्यक्ति के बारे में या इसके परिवार के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी / सुराग मिले तो निम्नलिखित पते या फोन नम्बरों पर सूचित करें।

DP/5129/SE/2023

हस्ता/- थानाध्यक्ष थानाः सनलाईट कॉलोनी, हिल्ली हेलीफोन नंबर: 011- 9811218421

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त अमित आहूजा पुत्र सोम नाथ आहुजा निवासी डी-235बी, फेस-।, विवेक विहार, दिल्ली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 235/23 दिनांक 04.03.2023 भा.द.सं. की धारा 420/406 के तहत, थाना मौर्य एन्क्लेव, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त अमित आहुजा मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया है कि उक्त अभियुक्त अमित आहुजा फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 235/23 दिनांक 04.03.2023 भा.द.सं. की धारा 420/406 के तहत थाना मौर्य एन्क्लेब, दिल्ली के उक्त अभियुक्त अमित आहुजा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 01.07.2023 को या उससे पूर्व हाजिर हो। आवेशानुसार

श्री अजय नागर अतिक्ति मुख्य महानगर दण्डाधिकारी नॉर्थ वेस्ट, कमरा नं,101

पहली मंजिल, रोहिणी कोर्टस, दिल्ली दि.पु./3961/उत्तर पश्चिम/2023



पंजीकृत कार्यालय : ९वीं मंजिल, अन्तरिक्ष भवन, २२, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-११००१ दूरभाषें : 011 -23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

शाखा कार्यालयः प्लॉट नं. टीसी/जी-2/2, और टीसी/जी-5/5, कार्यालय संख्या- 307 और 308, तीसरी मंजिल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, साइबर हाइटस, विभति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-२२६०१०, उत्तर प्रदेश फोन नेवर: 0522-3536820

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्)

जबकि. अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माप तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ के प्रवर्तन के नियम ८(१) के अनुपालन में, और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक खाते के सम्मुख निर्देष्ट तिथियों को उधारकर्ता/अ को, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि /उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिवसों के अंदर, प्रत्येक खाते के सम्मुख निर्दिष्ट राशि के प्रतिभुगतान हेत्, एक

उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं अतएव एतदद्वारा उधारकर्ता/ओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है वि अधोहरताभरकर्ता ने यहां डॅसमें निम्न विवरणित संपत्ति को उक्त नियमावली के नियम ८ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारो १३(४) के अंतर्गत उनकं प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत प्रत्येक खाते के सम्मख निर्दिष्ट तिथियों को कब्जा ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता/ओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण क एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेंन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई का किसी भी प्रकार का लेन-देन उक्त राशि तथा ऋण समझौते के अनुसार उस पर न्याज हेत् पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। **अधिनियम की धारा १३ की उप-धारा (८) के प्रावधानों के अंतर्गत सरक्षित** पर्रिसंपत्तियों को भुगाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

क्रम सं.	ऋण खाता से.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता गारंटर का नाम	मोंग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा करने की तिथि	गिरवी रखी गई सम्पत्ति का विवरण
L	HOU/ LUC/0319 /658739 शा.का. : लखनऊ	श्री रवि कुमार (ऋणकर्ता), श्रीमती कंचन कुमारी (सह-ऋणकर्ता)	16.11.2022	रु.13,03,953.47/- (रुपये तेरह लाख तीन हजार नौ सौ तिरेपन एवं सैंतालिस पैसे मात्र)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.0 के समस्त वह भाग तथा अंश, जो डुप्लेक्स गंगा जीवन सुख के रूप में, खसरा सं. 104,105 एवं 106 पर ग्राम नवदेया सिंहे, बड़ा बाईपास के समीप, पीलीभीत मार्ग, बरेली, पदमावती अकादमी और बुज भूषण लाल पब्लिक के पास बरेली, (उत्तर प्रदेश) 243001

स्थान : लखनऊ,

तिथि: 13.05.2023

प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि



पंजीकृत कार्यालयः इंडसइंड बैंक लिमिटेड, 2401 जनरल थिमैय्वा रोड (छावनी), पुणे - 411 001, भारत अंचल कार्यालयः फाइनेशियल रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीकंस्ट्रक्शन ग्रूप, 11वीं मंजिल, हवात रीजेंसी कॉम्प्लेक्स, न्यू टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत नीलामी बिक्री सूचना प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों की विक्री के लिए विक्री सूचना। एतद्द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी/गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने संपत्ति का **भौतिक कब्जा** ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता से प्रतिभूतित ऋणदाता को देय नीचे वर्णित अनुसार बैंक की बकाया राशि और आगामी व्याज, लागत व खर्च की वसूली के लिए निम्नलिखित ऋण खाते में "जैसी है जहां है", "जैसी

है जो कुछ भी है", "वहां जो कुछ मौजूद है" और "बिना संसाधन के आधार" पर 02 जून, 2023 को बेचने के अधिकार के साथ लिया है। नीचे उल्लिखित संपत्तियों की बिक्री वेब पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा आयोजित की जाएगी। खाते/बंधककर्ता/गारंटरों के नाम कल देवताएं संपत्ति के निरीक्षण की तिथि समय

			2022 को है, के 26.05.2023 लॉट 1 सुबह 10:30 बजे र लागत, प्रभार तक, लॉट 2 सुबह 11:30 बजे से दोप तक, लॉट 3 दोपहर 12:30 बजे से दोपहर			पहर 12:30 बजे	
लॉट वे	100 Marian		ईए	त मृल्य मडी ल बोली	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अंतिम तिबि	
1.	प्लॉट नंबर 69, 70, 87, 88, 89, 90 स्थित अराजी नंबर 4504 से 4512/1, 4514/1, 4515, 4518, 4519, 4520 मिन, महाप्रज्ञ नगर, नेगड़िया रोड, ग्राम असिन्द, तहसील असिन्द, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान		表 62,88,000/- 表 6,28,800/- 表 1,00,000/-		02.06.2023 पूर्वा. 10 बजे से पूर्वा. 11 बजे तक	01.06.2023 अप. 5:00 बजे तक	
2.	प्लॉट नंबर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 स्थित अराजी नंबर 4504 से 4504 से 4512/1, 4514/1, 4515, 4518, 4519, 4520 मिन महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड, ग्राम असिन्द, तहसील असिन्द, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।		五 8,3	4,300/- 0,000/-	02.06.2023 पूर्वा. 11.30 बजे से अप. 12.30 बजे तक	01.06.2023 अप. 5:00 बजे तक	
	प्लॉट नंबर 101 से 105, अराजी नंबर 4504 4520 मिन, महाप्रज्ञ नगर, नेगड़िया रोड, 1 भीलवाड़ा, राजस्थान		₹, 5,5	5,000/- 5,000/- 0,000/-	02.06.2023 अप. 1 बजे से अप. 2 बजे तक	01.06.2023 अप. 5:00 बजे तक	

मोबाइल नंबर 9717375920, ई-मेल आईडी:- Nitin.Mahajan@indusind.com नियम और शर्तेः 1. इच्छ्क बोलीदाता अपने इंएमडी विवरण और दरतावेज वेब पोर्टलः https://sarfaesi.auctiontiger.net पर लॉगिन आईडी और पासवह

के माध्यम से (यूजर आईटी और पासवर्ट https://sarfaesi.auctiontiger.net के साथ नाम दर्ज करके मफ्त में प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से जमा करेंगे। ईएमडी निम्नलिखित खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से देव होगी: 00013564604005, IFSC Code - INDB00000001 उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तिथियों को या उससे पहले शाम 5:00 बजे तक। कृपया ध्यान दें कि चेक को ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और सुचना के अनुसार, संपत्ति कर, सोसायटी बकाया आदि जैसे संपत्ति सर्विधिक देय राशि पर कोई भार नहीं है। हालांकि बैंक किसी भी बकाया वैधानिक देव राशि/ऋणभार/ कर बकाया, यदि कोई होगा, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छक बोलीदाताओं को ऋणभार, संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए और खुद का निरीक्षण और संतुष्ट होना चाहिए। ३. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने इंएमढी जमा कर दी है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे हमारे सेवा प्रदाता मेससं ऑक्शन टाइगर से https://sarfaesi.auctiontiger.net से संपर्क कर सकते हैं; संपर्क व्यक्ति श्री राम प्रसाद शर्मा, मोबाइल नंबर- 8000023297, ईमेल आईडी: support@auctiontiger.net और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, कार्य दिवसों (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक) के दौरान कार्यालय समय में ऊपर उल्लिखित अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 4, उच्चतम बोली इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी के पास इस प्रकार प्राप्त सभी या किसी भी प्रस्ताव/बोली को बिना कोई कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। 5. विस्तृत नियम और शतौं के लिए बैंक की वेबसाइट www.indusind.com और https://sarfaesi.auctiontiger.net देखें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के अंतर्गत सांविधिक 15 दिनों की बिक्री सुचना ऋणै/गारंटर/रेहनकर्ता को ई-नीलामी तिथि से पूर्व उपरोक्त वर्णित राशि के साथ तिथि तक व्याज तथा अनुषंगी खर्चे को अदायगी के लिए एतद्द्वारा अधिसृचित

किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर संपत्ति की नीलामी/ विक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई होगी, ज्याज व लागत के साथ वसूल की जाएगी। स्थान: भीलखाड़ा, राजस्थान प्राधिकृत अधिकारी, (इंडसइंड बैंक लि.) ब्रिलियंट पोर्टफोलियोज् लिमिटेड

कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

Place: New Delhi

Date: 12.05.2023

(C Piramal

Capital & Housing Finance

पंजी. कार्यालयः बी-09, 412, आईटीएल टॉवर, नेताजी सभाष प्लेस, पीतमपरा, नई दिल्ली- 110088 टेली: 011-45058963, ई-मेल: brilliantportfolios@gmail.com CIN: L74899DL1994PLC057507

सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकृटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 29 व 47 के अनुवर्ती एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के लेखापरीक्षित ... वित्तीय परिणामों पर परस्पर विचार, अनुमोदन और रिकार्ड पर लेने के लिए कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक सोमवार, 22 मई, 2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे इसके पंजीकृत कार्यालय पर आयोजित की जाएगी। सुचना में निहित जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.brilliantportfolios.com और बीएसई की वेबसाइट

www.bseindia.com पर उपलब्ध है। कृते ब्रिलियंट पोर्टफोलियोज लिमिटेड

ICICI Bank

पंजीकृत कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, चकली सर्कल के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा - 390007, गुजरात **कॉर्पोरेट कार्यालय:** आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400051, महाराष्ट्र

शाखा पुनःस्थापन सूचना

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली-नई रोहतक रोड शाखाकी ओर से

प्रिय ग्राहको,

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 13.05.202**3**

आपको सूचित किया जाता है कि 19 जुलाई , 2023 से हम एक अधिक सूविधाजनक स्थान पर स्थानांतरित हो रहे हैं। नए स्थान का पता नीचे दिया गया है: नया स्थान: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर 32, ब्लॉक नंबर -62, न्य

रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -110005। आपकी खाता संख्या या आपको जारी की गई सुरक्षा मदों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

हमारी नई दिल्ली-नई रोहतक रोड शाखा में लॉकर रखने वाले ग्राहकों के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश लागू हैं। अपनी शाखा को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में, हम सुरक्षित जमा लॉकरों को भी ऊपर

बताए गए पते पर स्थानांतरित करेंगे। लॉकर इकाइयों की शिफ्टिंग 17 जुलाई, 2023 से शुरू होगी और उन्हें 19 जुलाई, 2023 को नए स्थान पर स्थापित किया जाएगा। यदि आप अपने लॉकर को नए स्थान पर संचालित करना जारी रखना चाहते हैं, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना लॉकर खाली कर दें और इसकी सामग्री को

संभाल लें। कृपया 17 जुलाई, 2023 से पहले ऐसा करें। आप अपनी सुविधानुसार 19 जुलाई, 2023 के बाद बैंकिंग समय के दौरान, किसी भी समय, नए स्थान पर उन्हें बदल यदि आप अपने लॉकर को खाली करने में असमर्थ हैं, तो हमें लॉकर इकाइयों को उसकी

सामग्री के साथ स्थानांतरित करना होगा। लॉकर इकाइयों को उचित पर्यवेक्षण के तहत स्थानांतरित किया जाएगा और उन्हें सावधानी से संभालने के लिए हर सावधानी बरती

आपको हर समय सर्वोत्तम सेवाओं का आश्वासन।

शाखा प्रबंधक, नई दिल्ली-नई रोहतक रोड शाखा

डीसीएम नोवेल लिमिटेड NOUVELLE सीआईएन:L17309DL2016PLC307204

पंजीकृत कार्यालय: 407, विक्रांत टॉवर, 4 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008 फोन: 011-45013348 |ईमेल आईडी: info@dcmnvl.com

31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वार्षिक लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का निष्कर्ष

		तिमाही	समाप्त	समाप्त वर्ष	
क्रम सं.	विवरण		31/03/2022 (लेखापरीक्षित)	31/03/2023 (लेखापरीक्षित)	31/03/2022 (लेखापरीक्षत
1	प्रचालन से कुल आय	23,948	24,941	87,024	91,763
2 3	ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन से पहले कमाई शुद्ध लाम / (हानि) अवधि के लिए (कर से पहले,	1,392	3,091	3,740	18,266
4	(असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद कर से पूर्व की अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि)	603	2,753	2,117	16,413
5	(असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	309	2,753	1,823	16,413
6	(असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय[जिसमें लाभ /	113	2,109	1,166	12,260
	(हानि) शामिल है, उस अवधि के लिए (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय)	1,166	2,079	1,179	12,231
7	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी				
	(प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 / —)	1,868	1,868	1,868	1,868
9	अन्य इक्विटी प्रति शेयर आय. (प्रत्येक ₹10 / —) (जारी और बंद संचालन के लिए) —		-	30,020	28,778
	—बेसिक और डिलुटिड (₹)	0.60	11.29	6.24	65.64

उपर्युक्त सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 व तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अर्क है। स्टैंडअलोन और समेकित तिमाही / वार्षिक वितीय परिणामों का पूरा प्रारूप कंपनी की वेबसाइट (www.dcmnvl.com) पर और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों (www.nseindia.com) पर उपलब्ध है।

2. सेबी (LODR) 2015 के विनियमन 47 (1) (इ) के अनुसार कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय जानकारी:

	i e	तिमाही	समाप्त	समाप्त वर्ष		
क्रम सं.	विवरण	31/03/2023 (ਜੇਬਾਪरੀਵਿਗ)	31/03/2022 (लेखापरीक्षित)	31/03/2023 (लेखापरीक्षित)	31/03/2022 (लेखापरीक्षित	
1	प्रचालन से कुल आय	23,951	24,941	87,033	91,763	
2	ब्याज, कर, मूल्यझस और परिशोधन से पहले कमाई	1,478	3,111	4,131	18,286	
3	कर पूर्व लाभ (असाधारण मदों से पूर्व)	691	2,773	2,516	16,433	
4	कर पूर्व लाभ (असाधारण मदों के बाद)	397	2,773	2,222	16,433	
5	कर के बाद लाभ	201	2,129	1,565	12,280	

3. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय परिणाम जो साविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से निकाले गए हैं, लेखा परीक्षा समिति हारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल हारा 13 मई 2023 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में अनुमोदित किए गए हैं । सांविधिक लेखा परीक्षकों ने इन वित्तीय परिणामों पर असंशोधित लेखा परीक्षा राय व्यक्त की है। निदेशक मंडल की ओर से

डीसीएम नोवेल लिमिटेड हेमंत भरत राम (प्रबंध निदेशक

तिथि: 13.05.2023 **स्थान**ः नई दिल्ली

स्थान : गुरुग्राम

दिनांकः 12-05-2023

भारत सीटस लिभिटेड CIN: L34300DL1986PLC023540 पंजीकृत कार्यालयः 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

निगमित कार्यालयः प्लॉट नं. 1, मारुति उद्योग ज्वाइंट वेंचर कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा) भारत फोन: 91 9643339870-74, ई-मेल: investor_relations@bharatseats.net

वेबसाइटः www.bharatseats.com अंशधारकों के लिये सूचना (विषय: कंपनी के समता अंशों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिये)

एतदद्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षण, अंतरण तथा धनव पसी) नियमावली 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124(6) के अनुसार सूचित किया जाता है कि कंपनी के वे सभी समता अंश जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात अथवा अधिक वर्षों की एकावधि के लिये अदावाकृत या प्रदत्त बना हुआ है, कंपनी द्वारा उन्हें निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण में अंतरित किये जाने की आवश्यकता है। आईईपीएफ नियमावली के अनुसार, कंपनी ने उन संबंधित अंशधारकों को उनके पंजीकृत पतों

पर व्यक्तिगत सूचना भेज दी है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये लाभांश का दावा / नकदीकरण नहीं किया है और जिनके अंश आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने की आवश्यकता है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अपने अंशों के अंतरण किये जाने से बचने के लिये अधिकतम 14 अगस्त 2023 तक अपने अदावाकृत लाभांश का दावा कर लें। ऐसे अंशधारकों के विवरण, संबंधित अंशधारकों द्वारा सत्यापन किये जाने के लिये कंपनी की

वेबसाइटः www.bharatseats.com पर अपलोड किये गये हैं। संबंधित अंशधारकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 और उसके बाद के लिये, कंपनी या

इसके अंशांतरण अभिकर्ताओं अर्थात् अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को एक आवेदन प्रस्तुत करके आईईपीएफ में अंतरित करने से पहले, अपने अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश का दावा कर लें। यदि संबंधित अंशधारकगण, अंतरण की अगली देय तिथि तक, अपने उस किसी भी लाभांश का नकदीकरण नहीं करते हैं, जो विगत सात (7) निरंतर वर्षों से अप्रदत्त / अदावाकृत है, तो कंपनी नियमावली का अनुपालन करने की दृष्टि से, अंशधारकों को बिना कोई सूचना दिये आईईपीएफ प्राधिकरण को अंशों का अंतरण कर देगी तथा इस तरह अंतरित अंशों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई भी दायित्व तय नहीं होगा।

यदि अंशधारक आईईपीएफ में अंतरण के बाद अंशों / लाभांश का दावा करना चाहते हैं, तो आईईपीएफ प्राधिकरण को आईईपीएफ-5 के प्रारूप में पृथक आवेदन करना होगा, जैसा कि आईईपीएफ नियमावली के तहत निर्धारित किया गया है और यह आईईपीएफ वेबसाइटः www.iepf.gov.in पर सभी विवरणों के साथ उपलब्ध है। अधिक जानकारी / स्पष्टीकरण के लिये, संबंधित अंशधारक निम्नलिखित पते पर कंपनी या

आरटीए से संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी का निगमित कार्यालय	रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ऑफिस
भारत सीट्स लिमिटेड	अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
(नोडल अधिकारी एवं कंपनी सचिव)	(यूनिटः भारत सीट्स लिमिटेड)
प्लॉट नंबर 1, मारुति उद्योग ज्वाइंट वेंचर	अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान
कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम—122015 (हरियाणा)	एक्सटेंशन, नई दिल्ली — 110 055
भारत	दूरभाषः 011-42541234, 23541234
दूरभाष: 91 9643339870-74 ईमेल:	ईमेलः rta@alankit.com
investor_relations@bharatseats.net	
	कृते भारत सीट्स लिमिटेड

ऋतु बख्शी कंपनी सचिव एफसीएसः 3401

ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

Regd. Office: Unit No 2053, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao Delhi 110006

CIN: L51909DL1985PLC020372, Ph: 011-41539140. Fax: 011-25765214 E-mail ID: limitedatlantic@gmail.com, Website: www.atlantic-commercial.com EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(Rs./Lakh)

			uarter Ende	d	Year	Ended
SI.	Particulars	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations	202.60	3.21	1.40	211.62	5.33
2	Net Profit/(Loss) for the year (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	197.10	0.72	0.85	198.90	2.24
3	Net Profit/(Loss) for the year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	197.10	0.72	0.85	198.90	2.24
4	Net Profit/(Loss) for the year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	140.58	0.72	0.63	141.85	1.67
5	Total Comprehensive Income for the year [Comprising Profit/(Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	140.58	0.72	0.63	141.85	1.67
6	Equity Share Capital	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(Sp)	720	- 1	191.29	49.43
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic (in ₹):" 2. Diluted (in ₹):	19.13 19.13	0.10 0.10	0.09	19.30 19.30	0.23 0.23

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the fourth quarter and year ended 31st March, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2023 are available on the websites of the Stock Exchange (www.msei.in) and on the company's website (www.atlantic-commercial.com).

> Narendra Kishore Gaur Chairman

For Atlantic Commercial Company Limited

DIN No. 06862823 पिरामल केपिटल एण्ड हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

(पूर्व में दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

CIN: L65910MH1984PLC032639 पंजीकृत कार्यालय: युनिट नं.-601, 6वीं मंजिल, पिरामल अमिटि बिल्डिंग, पिरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400070, फोन: +91 22 3802 4000, शाखा कार्यालय: जयपुर टॉवर, नंबर 302/1 से 6, तीसरी मंजिल, मिर्जा इस्माइल रोड, आकाशवाणी के सामने, जयपुर, राजस्थान 302001

कब्जा का सूचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8(1) एवं परिशिष्ट-IV के अनुसार अचल सम्पत्ति हेत्

जबिक, अधोहस्ताक्षरी पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉपीरेशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के अधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 और धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋणी(ओं) / जमानतदार(ओं) को जारी की गई मांग सूचना(ओं) में उल्लेखित राशि चुकाने के लिए, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर कहा गया था। ऋणी द्वारा राशि चुकाने में असफल होने पर, ऋणी जमानतदार(ऑ) और आमजनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) के साथ पठित प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम

죸.	ऋणीयों/जमानतदारों के नाम	प्रतिभूत आस्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक	कब्जे की
सं. 1.	लोन कोड-15300000918, शाखा-उदयपुर,	(अचल सम्पत्ति) फ्लैट नंबर 204, पहली मंजिल सीरा ग्रीन्ज, प्लॉट	एवं राशि 04-नवंबर-2022 क.1343470/-	दिनांक
1.	श्री/श्रीमती रहान खान (ऋणी), श्री/श्रीमती शेख शाजिया मोहम्मद हुसैन (सह-ऋणी), श्री/श्रीमती अखलाक खान (सह-ऋणी)	नंबर 2 चिकलवास, बड़गांब उदयपुर उदयपुर राजस्थान :- 313001	(रुपए तेरह लाख तियालीस इजार चार सी सत्तर मात्र)	10.05.2023
2.	लोन कोड-04700005157, शाखा- जोधपुर,	पट्ट नंबर 55, मिसल नंबर 60, बामोहल्ला,	29-दिसम्बर-2022 क.1248635/-	08.05.2023
_	श्री/ श्रीमती नितिन कोठारी (ऋणी), श्री/श्रीमती प्रिया जैन (सह-ऋणी), श्री/श्रीमती लक्ष्मी लाल कोठारी (सह-ऋणी), श्री/श्रीमती विजय कुमार कोठारी (जमानतदार)	जाटियों का वास बालोतरा, रामदेव मंदिर के पास बालोतरा, बाड़मेर बाड़मेर राजस्थान:- 344022	(रुपए बारह लाख अड़तालीस हजार छ: सौ पैंतीस मात्र)	00.00.202
3.	लोन कोड-04700005097, शाखा- जोधपुर, श्री/ श्रीमती नितिन कोठारी (ऋणी), श्री/श्रीमती प्रिया जैन (सह-ऋणी), श्री/श्रीमती लक्ष्मी लाल कोठारी (सह-ऋणी), श्री/श्रीमती विजय कुमार कोठारी (जमानतदार)	पञ्ज नंबर 55, विसल नंबर 60, बामोहल्ला, जाटियों का वास बालोतरा, रामदेव मंदिर के पास बालोतरा, बाड़मेर बाड़मेर राजस्थान:- 344022	29-दिसम्बर-2022 रू.362240/- (रुपए तीन लाख बासठ हजार दो सौ चालीस मात्र)	08.05.2023
4.	लोन कोड-15300001562, शाखा- उदयपुर, श्री/श्रीमती झाला भुपेन्द्र सिंह (ऋणी), श्री/श्रीमती मैना कुंबर झाला (सह-ऋणी), श्री/श्रीमती राजेन्द्र सिंह झाला (सह-ऋणी),	प्राम पोस्ट वगेरी, तहसील- सागवाड़ा, डूंगरपुर सागवाड़ा, डूंगरपुर राजस्थान- 314031	04-नवम्बर-2022 रू.876684/- (रुपए आठ लाख छिडल्तर इजार छ: सौ चौरासी मात्र)	10.05.2023
5.	लोन कोड-20300043095, शाखा- जयपुर एम आई रोड़, श्री/श्रीमती सुनिता दाका (ऋणी), श्री/श्रीमती श्री चंद दाका (सह-ऋणी), श्री/श्रीमती सुल्तान सिंह (सह-ऋणी),	प्लॉट नंबर 1380-ए सार्थंक हॉस्टल के नंबर 334 समर्थपुरा के पास, पिपराली रोड समर्पण कोचिंग के पास सीकर सीकर राजस्थान:- 332001		10.05.2023
6.	लोन कोड-20300043094, शाखा- जयपुर एम आई रोड, श्री/श्रीमती सुनिता दाका (ऋणी), श्री/श्रीमती श्री चंद दाका (सह-ऋणी), श्री/श्रीमती सुल्तान सिंह (सह-ऋणी),	प्लॉट नंबर 1380-ए सार्थक हॉस्टल के नंबर 334 समर्थपुरा के पास, पिपराली रोड समर्पण कोचिंग के पास सीकर सीकर राजस्थान:- 332001	(रुपए तैतीस लाख सैतीस हजार सात सी पन्द्रह मात्र)	10.05.2023
7.	लोन कोड-04700003751, शाखा- जोधपुर, श्री/ श्रीमती मंचा राम मीणा (ऋणी), श्री/श्रीमती मंजुला मीणा (सह-ऋणी)	प्लॉट नं. 116, पालड़ी बापुनगर, जिला पाली, सुमेरपुर, पाली, राजस्थान- 306902	23-मई-2022 क.1035284/- (रुपए दस लाख पैंतीस हजार दो सौ चौरासी मात्र)	08.05.2023
8.	लोन कोड-1530002444, शाखा- उदयपुर, श्री/ श्रीमती धर्मेन्द्र जोशी (ऋणी), श्री/श्रीमती नम्रता जोशी (सह-ऋणी)	प्लॉट नं. 28 बड़गांव बी आराजी नं. 1871/892/1 बड़गांव वी बांसवाड़ा बांसवाड़ा राजस्थान :- 327001	24-अगस्त-2021 क.511242/- (रुपए पाँच लाख ग्यारह हजार दो साँ बियालीस मात्र)	10.05.2023
9.	लोन कोड-0900003677, शाखा- भीलवाड़ा, श्री/ श्रीमती अमित कुमार श्रीमाल (ऋणी), श्री/श्रीमती सोनल श्रीमाल (सह-ऋणी)	प्लॉट नं. 153, आराजी नंबर 137, 153 घाटोल रोड पिपलोद बांसवाड़ा बांसवाड़ा राजस्थान:- 327001	23-मई-2022 रू.943191/- (रुपए नौ लाख तियालीस हजार एक सौ इकरानवे मात्र)	10.05.2023
10.	लोन कोड-0900004940, शाखा- भीलवाड़ा, श्री/ श्रीमती किशन लाल (ऋणी), श्री/श्रीमती देवकन्या किशन लाल (सह-ऋणी)	पञ्ज नंबर 12 आराजी नंबर 877 ग्राम अरनिया पंध चित्तीड्गढ् चित्तीड्गढ् राजस्थान :- 312612	27-दिसम्बर-2022 क.1210311/- (रुपए बारह लाख दस हजार तीन सी ग्यारह मात्र)	10.05.2023
11.	लोन कोड-06100001767, शाखा- बीकानेर, श्री/ श्रीमती लखी राम (ऋणी), श्री/श्रीमती रेखा देवी (सह-ऋणी)	खसरा नंबर 107, सर्वे नंबर 176 छोटा रानीसर बास, श्रीरामसर, सुजानदेसर बीकानेर बीकानेर राजस्थान :- 334001	27-दिसम्बर-2022 क.129605/- (रुपए एक लाख उनतीस हजार छ: सौ पाँच मात्र)	08.05.2023
12.	लोन कोड-05700001104, शाखा- कोटा, श्री/ श्रीमती प्रभु लाल (ऋणी), श्री/श्रीमती सुमिता बाई (सह-ऋणी)	प्लॉट नं. 139 (पश्चिम भाग) एस. डी. कॉलोनी, राम नगर के पीछे, भवानीमंडी भवानीमंडी झालावाड् झालावाड् राजस्थान :- 326034	04-नवम्बर-2022 रू.,858975/- (रुपए आठ लाख अठावन हजार नौ सौ पिचहत्तर मात्र)	10.05.2023
13.	लोन कोड-0900005618, शाखा- भीलवाड़ा, श्री/ श्रीमती महावीर जाट (ऋणी), श्री/श्रीमती उगमा लाल जाट (सह-ऋणी)	पड्डा संख्या 27, पुस्तक संख्या 120 ग्राम बडेसरा, जी.पी. फुलिया खुर्द तहसील शाहपुरा भीलवाड़ा भीलवाड़ा राजस्थान :- 311408	27-दिसम्बर-2022 क.399498/- (रुपए तीन लाख निन्धानवे हजार चार सी अठानवे मात्र)	11.05.2023
14.	श्री/ श्रीमती राजेन्द्र सिंह चौहान (ऋणी), श्री/श्रीमती चम्पा देवी (सह-ऋणी)	प्लॉट नंबर डी-84, आराजी नंबर 650 पंक्ति नंबर 12, शास्टा ड्रीम सिटी राजस्व ग्राम गठिला खेड़ा भीलवाड़ा भीलवाड़ा राजस्थान :- 311001	27-दिसम्बर-2022 रू. 1638641/- (रुपए सोलह लाख अड्तीस हजार छ: सौ इकतालीस मात्र)	08.05.2023
15.	लोन कोड-09000005981, शाखा- भीलबाड़ा, श्री/ श्रीमती राधेश्याम माली (ऋणी), श्री/श्रीमती देढ देवी (सह-ऋणी)	पञ्ज संख्या 2860 प्राम गिलुंद तहसील रेलमगरा राजसमंद उदयपुर राजस्थान :- 313209	27-मई-2021 रू.298581/- (रुपए दो लाख अठानचे हजार पाँच सौ इक्चासी मात्र)	09.05.2023
16.	लोन कोड-00900012963, शाखा- जवपुर - वैशाली, श्री/ श्रीमती अभय जैन (ऋणी), श्री/श्रीमती ज्ञान चंद जैन (सह-ऋणी)	दुकान नंबर जी- 101, टाइम स्क्वायर मॉल सेंट्रल स्पाइन, सेक्टर 2, विद्याधर नगर जयपुर जयपुर जयपुर राजस्थान :- 302039	04-नवम्बर-2022 क्र.1636592/- (रुपए सोलइ लाख छत्तीस इजार पाँच सौ वानवे मात्र)	10.05.2023
17.	लोन कोड-00900013885, शाखा- जवपुर - वैशाली, श्री/ श्रीमती राषवेन्द्र सिंह (ऋणी), श्री/श्रीमती कन्हेया लाल (सह-ऋणी)	फ्लैट नं104, प्लॉट नं1 राधा निकुंज ब्लॉक-सी बलरामपुरा सांगानेर जवपुर जवपुर राजस्थान :- 302029	04-नवम्बर-2022 स्त.2819377/- (रुपए अठाईस लाख उन्नीस हजार तीन सी सतहत्त्तर मात्र)	09.05.2023
18.	लोन कोड-15300002651, शाखा- उदयपुर, श्री/ श्रीमती विक्रय सिंह सारंगदेवत (ऋणी), श्री/श्रीमती यशौदा कुंवर (सह-ऋणी)	प्लॉट नंबर 4 और 5 राजस्व गांव पिपरदा, खसरा नंबर 670, 671 राजसमंद राजसमंद उदवपुर राजस्थान:- 313324	04-नवम्बर-2022 क.2299956/- (रुपए बाईस लाख निन्यानवे हजार नी सौ छप्पन मात्र)	09.05.2023
19.	लोन कोड-09000005598, शाखा- भीलवाड़ा, श्री/ श्रीमती पिंकी कुंवर (ऋणी), श्री/श्रीमती राज सिंह (सह-ऋणी)	प्लॉट नंबर 18 आराजी नंबर 1231, 1232, 1234, 1235, 1236 कपासन चित्तीङ्गढ़ चित्तीङ्गढ़ राजस्थान :- 312202	08-नवम्बर-2022 रू. 1129085/- (रुपए ग्यारह लाख उनतीस हजार पिच्यासी मात्र)	09.05.2023
20.	लोन कोड-15300002594, शाखा- उदयपुर, श्री/ श्रीमती मोहन लाल (ऋणी), श्री/श्रीमती रेखा माली (सह-ऋणी)	प्लॉट नंबर 15 श्याम सावरिया कॉम्प्लेक्स खसरा नंबर 1391/1, 1392 से 1398 राजनगर, राजसमंद राजसमंद राजस्थान:- 313326	04-नवम्बर-2022 रू. 1215346/- (रुपए सारह लाख पन्द्रह हजार तीन सी छिवालीस मात्र)	09.05.2023
21.	लोन कोड-09000006040, शाखा- भीलबाड़ा, श्री/ श्रीमती अंकुश कुमार दायमा (ऋणी), श्री/श्रीमती जोरावर मल खटीक (सह-ऋणी)	प्लॉट नंबर 56 आराजी नंबर 294, वार्ड नंबर 19 गंगापुर भीलवाड़ा भीलवाड़ा राजस्थान :- 311801	27-दिसम्बर-2022 रू. 2222701/- (रुपए बाईस लाख बाईस हजार सात सी एक मात्र)	09.05.2023
22.	लोन कोड-09000006552, शाखा- भीलवाड़ा, श्री/ श्रीमती नितिन टाक (ऋणी), श्री/श्रीमती शिमला देवी टाक (सह-ऋणी)	प्लॉट नंबर 46, आराजी नंबर 783 रेला रेलवे स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्ग के पास रेला मीलवाड़ा राजस्थान:- 311024	25-अप्रैल-2022 रू. 612829/- (रुपए छ: लाख बारह हजार आठ सी उनतीस मात्र)	12.05.2023
23.	लोन कोड-20300043126, शाखा- जवपुर एम आई रोड़, औ/ श्रीमती सुनिता दाका (ऋणी), ओ/श्रीमती श्रीचंद दाका (सह-ऋणी)		08-नवम्बर-2022 रू. 5795648/- (रुपए् सत्तावन लाख पिच्यानवे हजार छ: सौ अङ्गालीस मात्र)	10.05.2023
24.	लोन कोड-20300043134, शाखा- जयपुर एम आई रोड्, श्री/ श्रीमती सुनिता दाका (ऋणी), श्री/श्रीमती श्रीचंद दाका (सह-ऋणी)	प्लॉट नं. 13, बार्ड नंबर 42, बीएच टेगोर स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, बी / एच टेगोर स्कूल, नवलगड़ रोड, सीकर सीकर राजस्थान:- 332001	08-नवम्बर-2022 रू. 2995413/- (रुपए उनतीस लाख पिच्यानवे हजार चार सो तेरह मात्र)	10.05.2023
25.	लोन कोड-05700003105, शाखा- कोटा, श्री/ श्रीमती परमानंद नागर (ऋणी), श्री/श्रीमती मंजु एम (सह-ऋणी)	प्लॉट नंबर बी-105 सर्वोदय नगर, देवली अरब रोड कोल्ड स्टोरेज के पास कोटा कोटा राजस्थान :- 324001	27-दिसम्बर-2022 क. 2246629/- (रुपए बाईस लाख छियालीस हजार छ: सौ उनतीस मात्र)	10.05.2023
26.	लोन कोड-09000006553, शाखा- भीलवाड़ा, श्री/ श्रीमती नितिन टाक (ऋणी), श्री/श्रीमती शिमला देवी टाक (सह-ऋणी)	प्लॉट नंबर 46, आराजी नंबर 783 रेला रेलवे स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्ग के पास रेला मीलवाड़ा राजस्थान:-311024	25-अप्रैल-2022 रू. 499234/- (रुपए चार लाख निन्यानवे हजार दो सी चाँतीस मात्र)	12.05.2023
27.	लोन कोड-05700003702, शाखा- कोटा, श्री/ श्रीमती रंपनाथन वी एस (ऋणी), श्री/श्रीमती समशादेवी एम एस (सह-ऋणी)	फ्लैट नंबर 12 (द्वितीय तल) व्लॉक नंबर 10 मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2018 गांधी ग्राम रोड, एलआईजी बुंदी बुंदी राजस्थान:- 323001	27-दिसम्बर-2022 स. 458396/- (रुपए चार लाख अठावन हजार तीन सी छियानबे मात्र)	11.05.2023

स्थानः राजस्थान (प्राधिकृत अधिकारी), पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात) दिनांक: 14-मई-2023

मैसर्स बोनावेंच्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (सह- जयपुर जयपुर राजस्थान :- 302006

प्लॉट नंबर ए-657 विजय सिंह पश्चिक नगर,

वनस्थली आई क्लिनिक के पीछे भीलवाड़ा

चोपासनी जागीर जोधपुर, जोधपुर जोधपुर

प्लॉट नं. 29, खसरा नं. 360, ग्राम सांगरिया.

फ्लैट नंबर 804, 8वीं मंजिल, टावर ईसी,

एयराल्ड, अरबना ज्वेल्स मदरामपुरा, सांगानेर

जोधपुर, जोधपुर, राजस्थान- 342007

प्लॉट नंबर 8 का उत्तरी भाग खसरा नंबर 27-दिसम्बर-2022 रू. 2295338/-

321/149, सीता राम नगर एम्स रोड के पास ग्राम (रूपए बाईस लाख पिच्यानवे हजार तीन

भीलवाडा राजस्थान :- 3 1 100 1

राजस्थान: - 342001

08-नवम्बर-2022 स्त. 601040/-

(रुपए छ: लाख एक हजार चालीस

सौ अडतीस मात्र)

29-दिसम्बर-2022 रू. 430644/-

(रूपए चार लाख़ तीस हजार छ: सौ

चवालीस मात्र)

18-अक्टूबर-2021 रू.5997930/-

(रुपए उनसठ लाख सत्यानवे हजार नौ

सो तीस मात्र)

12.05.2023

9.05.2023

9.05.2023

12.05.2023

श्री/ श्रीमती मुरली धर लढ़ा (ऋणी),

श्री / श्रीमती शोभा शर्मा (ऋणी),

श्री / श्रीमती हीमा राम (ऋणी),

28. लोन कोड-09000001266, शाखा- भीलवाडा,

29 लोन कोड-04700005181, शाखा- जोधपुर,

श्री / श्रीमती कमलेश छंगानी (सह-ऋणी),

30. लोन कोड-04700004544, शाखा- जोधप्र.

श्री/श्रीमती सुनिता एस (सह-ऋणी),

31. लोन कोड-24100000571, शाखा- अंधेरी,

श्री/ श्रीमती भरत ए कपूर (ऋणी),

www.readwhere.com